



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 15]

नई दिल्ली, जुलाई 31—अगस्त 6, 2005, शनिवार/श्रावण 9—श्रावण 15, 1927

No. 15]

NEW DELHI, JULY 31—AUGUST 6, 2005, SATURDAY/SRAVANA 9—SRAVANA 15, 1927.

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2005

का.नि.आ. 76.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, मध्य कमान द्वारा ले. कर्नल आर. स्वाई का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, रूड़की में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फा. सं. 19/18/रूड़की/सी/डीई/2001/2152/डी(क्यू एण्ड सी)]

आर.एस. दूदानी, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 21st July, 2005

S.R.O. 76.—In pursuance of Sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Roorkee by reasons of acceptance by the General Officer

Commanding-in-Chief, Central Command of resignation of Lt. Col. R. Swain.

[F. No. 19/18/Roorkee/C/DE/2001/2152/D(Q & C)]

R.S. DUDANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2005

का.नि.आ. 77.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, रूड़की ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नल बी.के. पाण्डेय को छावनी बोर्ड, रूड़की का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन ले. कर्नल आर. स्वाई के स्थान पर किया गया है। जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फा. सं. 19/18/रूड़की/सी/डीई/2001/2152/डी(क्यू एण्ड सी)]

आर.एस. दूदानी, अवर सचिव

New Delhi, the 21st July, 2005

S.R.O. 77.—In pursuance of Sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the

Central Government hereby notifies that Col. V.K. Pandey has been nominated as a member of the Cantonment Board, Roorkee by the Station Commander, Roorkee in exercise of the powers conferred under clause (e) of Sub-Section (3) of Section 13 of that Act vice Lt. Col. R. Swain whose resignation has been accepted.

[F. No. 19/18/Roorkee/C/DE/2001/2152/D(Q & C)]

R.S. DUDANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2005

का.नि.आ. 78.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, मध्य कमान द्वारा मेजर प्रणय कुमार का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, आगरा में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फा. सं. 19/42/आगरा/सी/डीई/2001/2165/डी(क्यू एण्ड सी)]

आर.एस. दूदानी, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd July, 2005

S.R.O. 78.—In pursuance of Sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Agra by reasons of acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, Central Command of resignation of Major Pranay Kumar.

[F. No. 19/42/Agra/C/DE/2001/2165/D(Q & C)]

R.S. DUDANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2005

का.नि.आ. 79.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, आगरा ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नल वी.एस. लाल को छावनी बोर्ड, आगरा का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन मेजर प्रणय कुमार के स्थान पर किया गया है। जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फा. सं. 19/42/आगरा/सी/डीई/2001/2165/डी(क्यू एण्ड सी)]

आर.एस. दूदानी, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd July, 2005

S.R.O. 79.—In pursuance of Sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that Col. V.S. Lal has been nominated as a member of the Cantonment Board, Agra by the Station Commander, Agra in exercise of the

powers conferred under clause (e) of Sub-section (3) of Section 13 of that Act vice Major Pranay Kumar whose resignation has been accepted.

[F. No. 19/42/Agra/C/DE/2001/2165/D(Q & C)]

R.S. DUDANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2005

का.नि.आ. 80.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, मध्य कमान द्वारा कर्नल एम. पी. एस. काहलों का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, देहरादून में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फा. सं. 19/19/देहरादून/सी/डीई/2001/1943/डी(क्यू एण्ड सी)]

आर.एस. दूदानी, अवर सचिव

New Delhi, the 19th July, 2005

S.R.O. 80.—In pursuance of Sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Dehradun by reasons of acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, Central Command of resignation of Col. M.P.S. Kahlo.

[F. No. 19/19/Dehradun/C/DE/2001/1943/D(Q & C)]

R.S. DUDANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2005

का.नि.आ. 81.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, देहरादून ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नल ध्रुव चन्द कटोच को छावनी बोर्ड, देहरादून का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन कर्नल एम. पी. एस. काहलों के स्थान पर किया गया है। जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फा. सं. 19/19/देहरादून/सी/डीई/2001/1943/डी(क्यू एण्ड सी)]

आर.एस. दूदानी, अवर सचिव

New Delhi, the 19th July, 2005

S.R.O. 81.—In pursuance of Sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that Col. Dhruv Chand Katoch has been nominated as a member of the Cantonment Board, Dehradun by the Station Commander, Dehradun in exercise of the powers conferred under clause (e) of Sub-section (3) of Section 13 of that Act vice Col. M.P.S. Kahlo whose resignation has been accepted.

[F. No. 19/19/Dehradun/C/DE/2001/1943/D(Q & C)]

R.S. DUDANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2005

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2005

का.नि.आ. 82.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उप-धारा (7) के अनुसरण में अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, उत्तरी कमान द्वारा कर्नल ए.के. जोशी का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, बदामीबाग में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फा. सं. 19/22/बदामीबाग/सी/डीई/2001/2019/डी (क्यू एण्ड सी)]

आर.एस. दूदानी, अवर सचिव

New Delhi, the 18th July, 2005

S.R.O. 82.—In pursuance of Sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Badamibagh by reasons of acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, Northern Command of resignation of Col. A.K. Joshi.

[F. No. 19/22/Badamibagh/C/DE/2001/2019/D (Q & C)]

R.S. DUDANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2005

का.नि.आ. 83.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उप-धारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, बदामीबाग ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (3) के खण्ड (च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नल एम.एस. बिका को छावनी बोर्ड, बदामीबाग का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन कर्नल ए.के. जोशी के स्थान पर किया गया है। जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फा.सं. 19/22/बदामीबाग/सी/डीई/2001/2019/डी (क्यू एण्ड सी)]

आर.एस. दूदानी, अवर सचिव

New Delhi, the 18th July, 2005

S.R.O. 83.—In pursuance of Sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that Col. M.S. Bika has been nominated as a member of the Cantonment Board, Badamibagh by the Station Commander, Badamibagh in exercise of the powers conferred under clause (e) of Sub-section (3) of Section 13 of that Act vice Col. A.K. Joshi whose resignation has been accepted.

[F. No. 19/22/Badamibagh/C/DE/2001/2019/D (Q & C)]

R.S. DUDANI, Under Secy.

का.नि.आ. 84.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, मध्य कमान द्वारा कर्नल के.के. शर्मा का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, जबलपुर में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फा. सं. 19/48/जबलपुर/सी/डीई/2001/2020/डी (क्यू एण्ड सी)]

आर.एस. दूदानी, अवर सचिव

New Delhi, the 18th July, 2005

S.R.O. 84.—In pursuance of Sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Jabalpur by reasons of acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, Central Command of resignation of Col. K.K. Sharma.

[F. No. 19/48/Jabalpur/C/DE/2001/2020/D (Q & C)]

R.S. DUDANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2005

का.नि.आ. 85.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उप-धारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, जबलपुर ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (3) के खण्ड (च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नल कुलविन्दर सिंह को छावनी बोर्ड, जबलपुर का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन कर्नल के.के. शर्मा के स्थान पर किया गया है। जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फा.सं. 19/48/जबलपुर/सी/डीई/2001/2020/डी (क्यू एण्ड सी)]

आर.एस. दूदानी, अवर सचिव

New Delhi, the 18th July, 2005

S.R.O. 85.—In pursuance of Sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that Col. Kulwinder Singh has been nominated as a member of the Cantonment Board, Jabalpur by the Station Commander, Jabalpur in exercise of the powers conferred under clause (e) of Sub-section (3) of Section 13 of that Act vice Col. K.K. Sharma whose resignation has been accepted.

[F. No. 19/48/Jabalpur/C/DE/2001/2020/D (Q & C)]

R.S. DUDANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2005

का.नि.आ. 86.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा समूह 'ग' भंडारण पद भर्ती नियम, 1992, जहां तक उनका संबंध ज्येष्ठ भंडार अधीक्षक पद से है का, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय के अधीन सशस्त्र बल चिकित्सा भंडार डिपों केन्द्र ज्येष्ठ भंडार अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र बल चिकित्सा भंडार डिपों, समूह 'ख' पद (ज्येष्ठ भंडार अधीक्षक) भर्ती नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
वरिष्ठ भंडार अधीक्षक	35* (2005)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	5500-175-9000 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता			
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा			
11		12	
30% प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन या प्रतिनियुक्ति द्वारा।		प्रोन्नति : 5000-8000 रु. के वेतनमान में ऐसा भंडार अधीक्षक जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।	
70% भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन द्वारा।		टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	
भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन: केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :—			
(क)(i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सूदृश पद धारण किए हुए हैं; या			
(ii) जो मूल काडर/विभाग में 5000-150-8000 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो; और			
(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो :			
आवश्यक :			
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से सामग्री प्रबंधन या एक विषय के रूप में सामग्री प्रबंधन डिप्लोमा अथवा फार्मेसी में डिप्लोमा या समतुल्य।			
(ii) अस्पतालों या औषधालयों या ख्यातिप्राप्त औषधि विनिर्माताओं के अधिमानतः चिकित्सा भंडारों में भंडार पर्यावेक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव हो।			
वांछनीय :			
कम्प्यूटर या सूचना प्रौद्योगिकी में अनुभव।			
भूतपूर्व सैनिकों के लिए :			
टिप्पण : सशस्त्र बल के ऐसे कनिष्ठ कमीशन आफिसर की पंक्ति के कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्ति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं पर विचार किया जाएगा। यदि चयन कर लिया जाता है तो ऐसे अधिकारियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। (सिविल पदों के प्रतिनिर्देश से अधिवार्षिता की आयु तक)।			

11	12
	<p>टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त संविदा की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :—</p> <p>1. अपर महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा—अध्यक्ष</p> <p>2. उप महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा—सदस्य</p> <p>3. उप सचिव (सिविलियन कार्मिक) रक्षा मंत्रालय—सदस्य</p>	<p>जब अन्य व्यक्तियों में कोई सशस्त्र बल कार्मिक प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन के लिए चयन के क्षेत्र में है और उन भर्ती नियमों के किसी उपबंध को संशोधित/शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

[फा. सं. 11353/आरआर/डीजीएफएमएस/डीजी-2बी/520/आर आर/रक्षा(नि.)]

आर.बी. जोशी, अवर सचिव

New Delhi, the 14th July, 2005

S.R.O. 86.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Armed Forces Medical Services Group 'C' Storekeeping Posts Recruitment Rules, 1992, so far as they relate to the post of Senior Stores Superintendent, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Stores Superintendent in the Armed Forces Medical Stores Depot under the Directorate General Armed Forces Medical Services, Ministry of Defence, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Armed Forces Medical Stores Depot Group 'B' Post (Senior Stores Superintendent) Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in Columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. **Method of recruitment, age limit, and other qualifications, etc.**—The method of recruitment for the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing (and in consultation with the Union Public Service Commission), relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Senior Stores Superintendent	35* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Services, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 5500-175-9000	Selection	Not applicable
Whether benefit of added Years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972		Educational and other qualification required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7		8		9	10
Not applicable.		Not applicable.		Not applicable	Two years.
Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods		In case of recruitment by promotion/deputation or absorption grades from which promotion/deputation or absorption to be made			
11		12			
30% promotion failing which by deputation or re-employment of Ex-Servicemen. 70% deputation/re-employment of Ex-Servicemen		Promotion : Stores Superintendent in the pay scale of Rs. 5000-8000 with three years' regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation or re-employment of Ex-Servicemen : Officers under the Central Government :— (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; OR			

(ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 5000-150-8000 or equivalent in the parent cadre/department:

and

(b) possessing the following educational qualifications and experience.

Essential :

- (i) Diploma in Material Management or any Diploma having Material Management as a subject or Diploma in Pharmacy from a recognised University or Institution or equivalent.
- (ii) Three years' experience as Supervisor of Stores preferably in Medical Stores in Hospitals or Dispensaries or Drug Manufacturers of repute.

Desirable :

Experience in Computer or Information Technology.

For Ex-Servicemen :

Note : The Armed Forces Personnel of the rank of Junior Commissioned Officer due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. (Re-employment upto the age of Superannuation with reference to civil posts).

Note: The suitability of the incumbent in the feeder grade (Rs. 5000-8000) with the requisite service shall be considered by the competent authority. In case the individual is considered fit he shall be deemed to have been promoted to the higher grade of Rs. 5500-9000. In case he is not considered fit his case will be reviewed every year, till such time, he will continue to hold the post in the lower grade.

Note : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
13		14
Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion :— 1. Additional Director General Armed Forces Medical Services—Chairman 2. Deputy Director General Armed Forces Medical Services—Member 3. Deputy Secretary (Civilian Personnel), Ministry of Defence—Member		Consultation with Union Public Service Commission necessary when an Armed Forces Personnel among others is in the field of selection for deputation or re-employment and for amendment/relaxation of any provision of these recruitment rules.

[File No. 11353/RR/DGAFMS/DG-2B/520/RR/D(Apptt.)]

R. B. JOSHI, Under Secy.